

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4 BHDE-108/EHD-08

स्नातक उपाधि कार्यक्रम

(बी. डी. पी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2022

बी.एच.डी.ई.-108/ई.एच.डी.-008 : प्रयोजनमूलक हिन्दी

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : खण्ड 'क', खण्ड 'ख' और खण्ड 'ग' के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए।

खण्ड—क

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग

500-500 शब्दों में दीजिए। $2 \times 20 = 40$

1. मौखिक और लिखित भाषा के स्वरूपगत अंतर पर प्रकाश डालिए।

2. 'हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण' से क्या तात्पर्य है ?

भाषा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया व अभिलक्षणों को समझाइये।

3. शब्दकोश के प्रकारों की चर्चा करते हुए कोश की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

4. भाषा के विकास में जनसंचार की भूमिका पर एक लेख लिखिए।

खण्ड—ख

5. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग **250-250** शब्दों में दीजिए : $4 \times 10 = 40$

(i) हिंदी वर्तनी के मानकीकरण को समझाइए।

(ii) अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए।

(iii) 'विधि के क्षेत्र में हिंदी' के स्वरूप और प्रयोग पर चर्चा कीजिए।

- (iv) व्यापार, वाणिज्य एवं बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी की वाक्य संरचना को उदाहरण सहित समझाइए।
- (v) राजभाषा हिंदी के विकास के संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों पर प्रकाश डालिए।
- (vi) केन्द्रीय कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में दिनांक 01-07-2019 से तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कीजिए।
- (vii) सामाजिक जागरण के क्षेत्र में सिनेमा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
- (viii) समाचार लेखन के सिद्धान्तों की चर्चा कीजिए।

खण्ड—ग

6. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए : $5 \times 2 = 10$

- (i) अव्यय
- (ii) मानकीकरण की आवश्यकता
- (iii) ‘प्रयुक्ति’ का तात्पर्य
- (iv) कार्यालय ज्ञापन
- (v) प्रमाणीकृत विज्ञापन का अर्थ

7. निम्नलिखित शब्दों के हिन्दी पर्याय बताइए : $5 \times 1 = 5$

- (i) DEPUTATION
- (ii) MOTTO
- (iii) ENDORSEMENT
- (iv) DEED
- (v) UNAVOIDABLE

8. निम्नलिखित में से सही अथवा गलत कथन का उल्लेख
कीजिए : $5 \times 1 = 5$

- (i) हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली में उर्दू के शब्द
नहीं हैं।
- (ii) प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का केवल कार्यसाधक
ज्ञान होना पर्याप्त है।
- (iii) कार्यालयी हिंदी एक विशिष्ट भाषिक प्रयुक्ति है।
- (iv) सभी कार्यालयी स्थितियों में पत्र का प्रयोग किया
जाता है।
- (v) अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में होता है।